

**भावना के निर्धन जन सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत,दिनांक-20-01-2023 को सम्पन्न,अष्टम  
सहायता शिविर की संक्षिप्त रिपोर्ट।**

\*\*\*\*\*

भावना के निर्धन-जन सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत, लखनऊ जनपद तथा पड़ोसी जनपद के ग्राम्यांचलों के निर्धन एवं असहाय निवासियों को शीतकाल में ठण्ड से बचाव हेतु ऊनी कम्बल वितरित किये जाते हैं ।

भावना के ग्राम्यांचल एवं निर्धन-जन सेवा प्रकोष्ठ द्वारा, कम्बल वितरण के प्रयोजनार्थ , आठवां शीतकालीन सहायता शिविर,दिनांक- 20.01.2023 ( शुक्रवार ) को जनपद लखनऊ , विकास खण्ड बखशी का तालाब के ग्राम मंझोरिया में आयोजित किया गया ।

कैम्प में भावना के अध्यक्ष श्री विनोद कुमार शुक्ला जी , प्रकोष्ठ के संयोजक श्री प्रभात किरण चौरसिया जी , उपाध्यक्ष श्री टी. एन. कनौजिया जी, भावना के महासचिव कार्यान्वयन श्री जगमोहन लाल जायसवाल, श्री चन्द्रशेखर आजाद जी , श्री सुनील कुमार उप्रेती जी, श्री रमेश प्रसाद जायसवाल जी , श्री विश्वनाथ सिंह जी , श्री राज देव स्वर्णकार जी , श्री राम सजीवन शुक्ला जी , श्री आदित्य प्रकाश सिंह जी , श्री एम. पी. वर्मा जी , श्री एस.एन. शर्मा जी , श्री दीनबंधु यादव जी , श्रीमती गुलाब देवी यादव जी तथा ग्राम प्रधान श्री राकेश कुमार यादव जी इत्यादि उपस्थित रहे।

इस अवसर पर भावना के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विनोद कुमार शुक्ला ने अपने संदेश में ग्रामवासियों को उनके हित की उपयोगी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी और उन्हें जनसेवा केंद्र पर जाकर ई-श्रम कार्ड एवं भारत सरकार की आयुष्मान योजना का गोल्ड कार्ड बनवाने हेतु विशेष प्रेरित किया। इसके साथ ही सभी ग्रामवासियों की समृद्धि, स्वास्थ्य एवं प्रसन्नता की कामना की एवं परस्पर भाईचारा बनाये रखने का आह्वान किया। तदोपरान्त भावना के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विनोद कुमार शुक्ला जी एवं भावना के सभी उपस्थित पदाधिकारियों तथा ग्रामप्रधान द्वारा ग्राम मंझोरिया , शिवखर तथा पर्वतपुर के पूर्व चयनित बृद्ध , गरीब तथा विकलांग पुरुषों तथा बृद्ध एवं विधवा महिलाओं को , शीत ऋतु में ठंड से बचाव हेतु 91 अदद नये ऊनी कम्बल वितरित किए गए । कंबल वितरण के कुछ फोटो भावना की वेबसाइट के गैलरी- फोटो अल्बम सेक्शन में देखे जा सकते हैं।

**प्रभात किरण चौरसिया**

**सचिव एवं संयोजक**

**ग्राम्यांचल एवं निर्धन जन सेवा प्रकोष्ठ।**